



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 28 फरवरी, 2018 / 09 फाल्गुन, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th October, 2017

No. Coop-C(5)-1/2006-I.—In compliance to the online application submission mandate Ease of Doing Business (EoDB)-Business Reform Action Plan (BRAP), 2017, the Department of

Co-operation has prepared software for mandating submission of application by online mode for registration of societies in the State under Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006. The said software has been uploaded on the website.

The online services can be availed through <http://admis.hp.nic.in/hpcoop>. No offline application for registration of societies shall be entertained and submission/processing of online application should be strictly complied.

By order,
ANIL KHACHI,
Addl. Chief Secretary (Coop.).

CO-OPERATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 8th February, 2018

No. Coop-C(5)-1/2006-I.—In partial modification of this Department's notification dated 28-10-2017 *vide* which the Department of Co-operation had made submission of application by online mode for registration of societies in the State under Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 mandatory, it has been decided to accept offline applications also for registration of societies till the software is made fully operational.

By order,
R.D. DHIMAN,
Pr. Secretary (Coop.).

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th February, 2018

No. Rev. C (A)1-4/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 99(1)(2)(3) (a)(b)(c) of the Waqf Act, 1995, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to dissolve the existing Body comprising non-official members of the Himachal Pradesh Waqf Board constituted *vide* notification of even No. dated 22nd July, 2013 with immediate effect.

The orders of new nominations will be issued separately.

By order,
ONKAR CHAND SHARMA,
Pr. Secretary-cum-F.C. (Revenue).

REVENUE DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 13th February, 2018*

No. Rev.C(A)1-4/2008.—The election for the Chairman, Himachal Pradesh Waqf Board under sub-section (8) of Section 14 of the Waqf Act, 1995 (As Amended) was held on 09-02-2018 at 12.30 P.M. under the Chairmanship of Principal Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 in which Sh. Mohd. Rajbali, Vill. Bihandhar, P.O. Gharan, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. has been elected unanimously as the Chairman of the H.P. Waqf Board.

Now, in exercise of the powers conferred under sub-section (8) read with clause (a) of sub-section (1) of Section 14 of the Waqf Act, 1995 (As Amended), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Sh. Mohd. Rajbali as Chairman of the H.P. Waqf Board from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh.

The other terms and conditions of the Chairman will be issued separately.

By order,
ONKAR CHAND SHARMA,
Pr. Secretary-cum- F.C. (Revenue).

REVENUE DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 23rd February, 2018*

No. Rev.C(F)(Waqf)1-/2014-Loose.—In compliance with the instructions issued by the Department of Personnel *vide* letter No. Per.(AP.B)B(15)-6/2012, dated 27 December, 2017 and in supersession of this Department's Notification No. Rev.C(F)(Waqf)1-2014, dated 20th September, 2016, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order the termination of Sh. Tipu Khan, Non-Official Member, in Waqf Tribunal at Dharamshala, H.P. with immediate effect.

By order,
ONKAR CHAND SHARMA,
Pr. Secretary-cum- F.C. (Revenue).

ग्रामीण विकास**अधिसूचना**

शिमला-9, 16 फरवरी, 2018

सं०. आर०आई००डी०एए(बी)१-१ / 2017.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन एवं व्यावृत्तियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या आर0आई00डी0-1-ए(3)-2/78 तारीख 06-05-1982 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, उप निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1982 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
आर. एन. बत्ता,
सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में उप निदेशक वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—उप निदेशक
2. **पद (पदों) की संख्या.**—01 (एक)
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग-I (राजपत्रित)
4. **वेतनमान.**—पे बैंड : रुपये 15600-39100 + 6600/- रुपए ग्रेड पे
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—चयन
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—लागू नहीं
7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं.**—(क) अनिवार्य अर्हता (ए):—लागू नहीं
(ख) वांछनीय अर्हता (ए):—लागू नहीं
8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.**—आयु : लागू नहीं
शैक्षणिक अर्हताएं : लागू नहीं।
9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.**—लागू नहीं।

10. भर्ती की पद्धति.—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या सैकण्डमेंट या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमेंट या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—खण्ड विकास अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय संख्या/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामीण क्षेत्रों में, पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (I) दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—I.—उपरोक्त परन्तुक (I) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण. II.—उपरोक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल
3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्थोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप-तहसील के गाड़ा गोशैणी, मठियानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण—III.—उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

- (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती आरै प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

- (ii) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—लागू नहीं।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद या (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this Department Government Notification No. RDD-AA(B)(1)-1/2017 dated 16th February, 2018 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 16th February, 2018

No. RDD-AA(B)1-1/2017.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Deputy Director, Class-I (Gazetted)** in the Rural Development Department, Himachal Pradesh as per Annexure- “A” attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Rural Development Department, Deputy Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2018.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Rural Development Department, Deputy Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1982 notified *vide* this Department Notification Number RID-I-A(3)-2/78 dated 06-05-1982 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
R.N. BATTA,
Secretary (RD).

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR,
CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT,
HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the Post.**—Deputy Director
2. **Number of post(s).**—01(One)
3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)
4. **Scale of Pay.**—Pay Band Rs.15600 – 39100 + Rs. 6600/- Grade Pay
5. **Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.**—Selection
6. **Age for direct recruitment.**—Not applicable
7. **Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).**—(a)
Essential Qualification(s).—Not applicable
(b) *Desirable Qualification(s).*—Not applicable
8. **Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).**—Age: Not applicable.
Educational Qualification—Not applicable
9. **Period of probation, if any.**—Not applicable
10. **Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.**—100% by promotion.
11. **In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer is to be made.**—By promotion from amongst the Block Development Officers who possess five years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any, in the grade :
(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
Provided further that the proviso (I) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:
Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (I) *supra* the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/remote areas/ rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigency/ convenience.

Explanation-II.—For the purpose of proviso (I) *supra* the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti
2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba district
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu district
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra district
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub-Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmaur district.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi district.

Explanation-III.—For the purpose of proviso (I) *supra* the Remote/ Rural Areas shall be as under:—

- (i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District headquarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

- (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all person senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 03 (three) years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rules-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rules 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

- (ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0

श्रीमती मलका देवी पत्नी श्री सवर्ण सिंह, टीका लड़योह, तप्पा बमसन, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—U/S 13(3) ग्राम पंचायत बराड़ा के अन्तर्गत टीका लड़योह, तप्पा बमसन, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में जन्म तिथि व नाम दर्ज करवाने बारे।

श्रीमती मलका देवी पत्नी श्री सवर्ण सिंह, टीका लड़योह, तप्पा बमसन, तहसील टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस शपथ—पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि स्कूल प्रमाण—पत्र व आधार कार्ड में उसके पुत्र का नाम संजीव कुमार व जन्म तिथि 15-07-1976 दर्ज है, जो कि सही है परन्तु पंचायत रिकार्ड में उसकी जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत बराड़ा में दर्ज नहीं है। प्रार्थिया पंचायत रिकार्ड में अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज करवाना चाहती है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-03-2018 को असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत पर आम जनता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 20-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, टौणी देवी।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्रीमती Nisha Devi

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती Nisha Devi पुत्री श्री Gatha Ram, निवासी Dhagwar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता श्री Gatha Ram की मृत्यु दिनांक 15-09-1979 है परन्तु ग्राम पंचायत Dhagwar में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Gatha Ram की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-03-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्रीमती Anita Kumari

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती Anita Kumari पत्नी श्री Pritam Chand, निवासी Gharoh, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र का नाम Sahil Thakur का जन्म दिनांक 03-12-1995 है परन्तु ग्राम पंचायत Gharoh में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Sahil Thakur का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 17-03-2018 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

**In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H.P.**

1. Shri Anurag Pradhan s/o Sh. Prem Bahadur Pradhan, r/o Chilgari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Ekta d/o Sh. Ganesh Bahadur Thapa, r/o Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

Versus

1. The General Public
2. Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 8-03-2007 at Chilgari but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages *i. e.* Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 22-03-2018 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 13-02-2018.

Seal.

Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala.

ब अदालत श्री दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र०

श्रीमती छेरिंग लामो नेगी पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

नोटिस

दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती छेरिंग लामो नेगी पत्नी श्री रणवीर सिंह, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र० ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री का नाम कु० प्रीती नेगी जिसकी जन्म तिथि 27-11-1987 है तथा ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज नहीं है। अब इनकी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज की जाए।

इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थिया की पुत्री का नाम कु० प्रीती नेगी, जिनकी जन्म तिथि 27-11-1987 है तथा ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मिति 16-03-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सापनी के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र०।

ब अदालत श्री दलीप कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र०

श्रीमती फूल कमारी पुत्री स्व० श्री श्याम लाल, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

नोटिस

दरखास्त अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती फूल कमारी पुत्री स्व० श्री श्याम लाल, निवासी गांव व डा० सापनी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र० ने एक दरखास्त गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पिता की मृत्यु 11-09-2016 को हो गई थी तथा ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज नहीं है। अब इनके पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज की जाए।

इस पर इस कार्यालय के द्वारा इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त प्रार्थिया के पिता की मृत्यु तिथि 11-09-2016 ग्राम पंचायत सापनी में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को उजर एवं एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मिति 16-03-2018 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थिया के पिता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सापनी के अभिलेख में दर्ज करवाने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 16-02-2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, जिला किन्नौर, हि० प्र०।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

Case No. : .../ 2018

Date of Inst. : 02-02-2018

Pending for : 03-03-2018

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public

Whereas, Shri Sandeep Sharma s/o Shri Vaishno Dass Sharma, r/o V.P.O. Sandhir, Tehsil Nilokheri, District Karnal (Haryana) presently at H.No. 452, Phase II, Housing Board Colony Baddi, P.O. and Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) and Smt. Priyanka d/o Sh. Mahesh Chander w/o Shri Sandeep Sharma s/o Shri Vaishno Dass Sharma, r/o V.P.O. Sandhir, Tehsil Nilokheri, District Karnal (Haryana) presently at H.No. 452, Phase II, Housing Board Colony Baddi, P.O. and Tehsil Baddi, District Solan (H.P.) have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 08-10-2008.

And whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the present time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice, the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 03-03-2018 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 03-03-2018, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 02-02-2018.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum- SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.*

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 28 फरवरी, 2018

संख्या 3-53/2017-ई.एल.एन.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 318/रा.स.-मल्टी/2/2018(2), दिनांक 28 फरवरी, 2018 जो कि राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित/नियुक्त करने बारे है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

आदेश से,
पुष्पेन्द्र राजपूत,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 28 फरवरी, 2018
फाल्गुन 9, 1939 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2/2018 (2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 5 मार्च, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के सम्बन्ध में एतद्वारा—

- (i) नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
(ii) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
आंध्र प्रदेश	कै. सत्यनारायण राव, उप सचिव, आंध्र प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय	श्री पी. बालाकृष्णमचार्युलु, उप सचिव, आंध्र प्रदेश विधान मण्डल सचिवालय
बिहार	श्री राम श्रेष्ठ राय, सचिव, बिहार विधान सभा	श्री भूषण कुमार झा, उप सचिव, बिहार विधान सभा
छत्तीसगढ़	श्री चन्द्र शेखर गंगराडे, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री जी. एस. मूर्ति, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
गुजरात	श्री ए. बी. करोरा, उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय	श्री एम. आई. मेहता, उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय
हरियाणा	श्री विजय सिंह दहिया, महानिदेशक, उच्च शिक्षा हरियाणा एवं हरियाणा सरकार के सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	श्री नरेन दत्त, संयुक्त सचिव, हरियाणा विधान सभा
हिमाचल प्रदेश	श्री जी. सी. नेगी, ए.डी.एम. (प्रोटोकॉल)	श्री दविन्दर वर्मा, अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा
झारखण्ड	श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा	श्री रंजीत कुमार, संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा
कर्नाटक	श्री एस. मूर्ति, सचिव (आई/सी), कर्नाटक विधान सभा	श्री एम. एस. कुमारस्वामी, संयुक्त सचिव (आई/सी), कर्नाटक विधान सभा
मध्य प्रदेश	अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा	श्री पुनीत कुमार श्रीवास्तव, संचालक, मध्य प्रदेश विधान सभा
महाराष्ट्र	श्री विलास गो. आठवले, उप सचिव महाराष्ट्र विधान मंडल	श्री सुभाष श्री नलावडे, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल
ओडिसा	श्री पाटिल राजेश प्रभाकर, निदेशक रोजगार-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ओडिसा कौशल विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर	श्री बिजय कुमार शाहू, उप सचिव, ओडिसा विधान सभा
राजस्थान	श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना (जन शक्ति एवं गजेटियर्स) तथा सांख्यिकी विभाग एवं आयुक्त और प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर	श्री महेश चन्द्र शर्मा, सहायक सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा
तेलंगाना	डॉ. वी. नरसिम्हा चार्युलु, सचिव, तेलंगाना विधान मण्डल सचिवालय	श्री एस. दुर्गा प्रसाद, उप सचिव, तेलंगाना विधान मण्डल सचिवालय
उत्तर प्रदेश	श्रीमति पूनम सक्सेना, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	श्री अशोक कुमार चौबे, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा
उत्तराखण्ड	श्री मदन सिंह कुंजवाल, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा	श्री मदन राम, उप सचिव, उत्तराखण्ड विधान सभा
पश्चिम बंगाल	श्री जयन्त कोले, सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्रीमति स्वस्ति आचार्य, उप सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा

आदेश से,
(आर.के. श्रीवास्तव),
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

28th February, 2018
Phalgun 9, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/CS-Multi/2/2018 (2).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby—

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of India, published in the Gazette of India on 5th March, 2018:—

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Sh. K. Satyanarayana Rao, Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature Secretariat	Sh. P. Balakrishnamacharyulu, Deputy Secretary, Andhra Pradesh Legislature Secretariat
Bihar	Sh. Ram Shrestha Rai Secretary, Bihar Vidhan Sabha	Sh. Bhushan Kumar Jha, Deputy Secretary, Bihar Vidhan Sabha
Chhattisgarh	Sh. Chandrasekhar Gangrade Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Sh. G.S. Murti, Under Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
Gujarat	Sh. A.B. Karora, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat	Sh. M .I. Mehta, Deputy Secretary, Gujarat Legislature Secretariat
Haryana	Shri Vijay Singh Dahiya, Director General, Higher Education, Haryana & Secretary to Govt. Haryana, Higher Education Department	Shri Naren Dutt, Joint Secretary, Haryana Vidhan Sabha
Himachal Pradesh	Shri G.C. Negi, ADM (Protocol)	Sh. Davinder Verma, Under Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha
Jharkhand	Shri Binay Kumar Singh, Secretary in Charge, Jharkhand Vidhan Sabha	Shri Ranjeet Kumar, Joint Secretary, Jharkhand Vidhan Sabha
Karnataka	Shri S. Murthy, Secretary (I/C), Karnataka Legislative Assembly	Shri M.S. Kumaraswamy, Joint Secretary (I/C), Karnataka Legislative Assembly
Madhya Pradesh	Sh. Awadhesh Pratap Singh Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Sh. Puneet Kumar Srivastava, Director, Madhya Pradesh Vidhan Sabha
Maharashtra	Shri Vilas G. Athawale, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	Shri Subhash S. Nalawade, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Odisha	Sh. Patil Rajesh Prabhakar, IAS, Director, Employment-cum-Chief Executive Officer, Odisha Skill Development Authority, Bhubaneswar	Sh. Bijaya Kumar Sahoo, Deputy Secretary, Odisha Legislative Assembly
Rajasthan	Sh. Akhil Arora, Principal Secretary to Government, Planning (Manpower and Gazetteers) & Statistic Department & Principal Secretary to Government, Information Technology & Communication Department, Rajasthan, Jaipur	Sh. Mahesh Chandra Sharma, Assistant Secretary (General) Rajasthan Vidhan Sabha
Telangana	Dr. V. Narasimha Charyulu, Secretary, Telangana Legislature Secretariat	Sri S. Durga Prasad, Deputy Secretary, Telangana Legislature Secretariat
Uttar Pradesh	Smt. Poonam Saxena, Special Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly	Sh. Ashok Kumar Chaubey, Joint Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly
Uttarakhand	Sh. Madan Singh Kunjwal, Joint Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly	Sh. Madan Ram, Deputy Secretary, Uttarakhand Legislative Assembly
West Bengal	Sh. Jayanta Koley, Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Smt. Swasti Acharya, Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly

By order,
(R.K. SRIVASTAVA)
Senior Principal Secretary to the
Election Commission of India.